

## प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 30-10-2020

आज दिनांक 31.10.2020 को पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थ नगर द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में श्री शैलेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक बांसी के नेतृत्व में उप निरीक्षक संदीप राय मय हमराह के द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 338/2020 धारा 363/366 भा०द०वि० से संबंधित अपहृता को बरामद कर उसके माता-पिता से मिलाया गया व अभियुक्त संदीप यादव पुत्र शुभकरन निवासी ग्राम भुजराई थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

### प्रेस नोट दिनांक- 31.10.2020

#### एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा की गई कार्यवाही में 08 शोहदे पकड़े गये ।

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम और जनपद के सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा आज जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके और पार्क आदि स्थानों पर पाए गए 08 मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही की गयी ।

माननीय मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार द्वारा मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन के सम्बन्ध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी आदेश के क्रम में श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 31.10.2020 को प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ०नि० श्रीमती संध्या रानी तिवारी तथा समस्त थानो की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा मुख्य सड़को, चौराहों आदि पर चेकिंग की गयी। इस दौरान 08 शोहदे पकड़े गये । शोहदो द्वारा माफी मांगने पर भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने की हिदायत देने के बाद छोड़ा गया ।

जनपद के विभिन्न कस्बों और गावों तथा विद्यालयो में जागरूकता अभियान चलाया गया । जिसके अंतर्गत आज जनपद में सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन में मिशन शक्ति के तहत आपस में एक दूसरे से वार्तालाप किया गया और नारी सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे सेवाएं जैसे 1090 वीमेन पॉवर हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा के सम्बन्ध जानकारी दी गयी ।

## प्रेस नोट दिनांक- 31.10.2020

### श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा थाना चिल्हिया का निरीक्षण किया गया ।

आज दिनांक 31-10-2020 को श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा थाना चिल्हिया का निरीक्षण किया गया, सर्वप्रथम महोदय द्वारा थाना कार्यालय/दिवसाधिकारी/सीसीटीएनएस कक्ष/ बैरक/ संतरी ड्यूटी आदि का निरीक्षण कर थाना परिसर की साफ-सफाई हेतु श्री सभाशंकर यादव, थानाध्यक्ष थाना चिल्हिया को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया, थाने के विभिन्न अभिलेखों/रजिस्ट्रों का भी निरीक्षण गहनता से किया गया एवम् अपूर्ण अभिलेखों/रजिस्ट्रों को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा समस्त अपराधों पर नियंत्रण हेतु एवं रात्रि में पैदल गश्त व पिकेट ड्यूटी हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु समस्त उप-निरीक्षकगण को अपने-अपने कुशल पर्यवेक्षण में पूर्णनिष्ठा एवं निष्पक्ष रूप से कार्यवाही कराते हुये बेहतर परिणाम उपलब्ध कराने एवं जनता के साथ स्वयं एवं समस्त स्टाफ द्वारा किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न किया जाए इस हेतु निर्देशित किया गया ।